



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 14, 2012/माघ 25, 1933

No. 31]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 14, 2012/MAGHA 25, 1933

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2012

सं. विधि 42(3)/87.—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 23 के अधीन जारी अधिसूचना सं. 145(अ), दिनांक 21 फरवरी, 1991 के खण्ड 1 के साथ पठित धारा 12 की उप-धारा (1) के खंड (ख) और धारा 13 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032 एतद्वारा (क) नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला को उक्त अधिनियम और इसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं को सौंपे गये कार्य करने हेतु "पर्यावरणीय प्रयोगशालाएं" के रूप में और (ख) तालिका के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को विश्लेषण के लिए भेजे गये वायु, जल एवं अन्य पदार्थों के स्तंभ (4) में दर्शाए गए पैरामीटरों के संबंधित समूहों के लिए विनिर्दिष्ट नमूनों का विश्लेषण करने हेतु सरकारी विश्लेषक के रूप में मान्यता देता है। दिनांक 27 जनवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या विधि/42(3)/87 की क्रम संख्या 146 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याओं और प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

(क)

क्र. सं. प्रयोगशाला का नाम	सरकारी विश्लेषक का नाम	मान्यता हेतु पैरामीटर समूह
(1) (2)	(3)	(4)
147. केन्द्रीय प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, तृतीय तल, बी-ब्लॉक, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 उत्तर प्रदेश	1. डॉ. मधु भारद्वाज मुख्य पर्यावरण अधिकारी 2. डॉ. ब्रिजेश बहादुर, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी 3. डॉ. अशोक वर्मा, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी 4. डॉ. रिचा मिश्रा, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी 5. श्रीमती रुषा किरन, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी 6. डॉ. नीलम दीपक, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी	भौतिक, सामान्य, रासायनिक एवं गैर-1 धात्विक, धात्विक, कार्बनिक, सूक्ष्मजीव विज्ञानिक, विश्व विज्ञानिक, मृदा, स्लज, तलछट और परिवेशी वायु के विश्लेषण हेतु वायु प्रदूषण पैरामीटर, स्रोत उत्सर्जन, शोर एवं सूक्ष्म मौसम वैज्ञानिक पैरामीटर

148	क्षेत्रीय प्रयोगशाला, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्लॉट नं. 455/456, विजयनगर, जबलपुर - 482002 मध्य प्रदेश	1. श्री टी.जी.बनर्जी, कनिष्ठ वैज्ञानिक 2. डा. ए.के.खरे, कनिष्ठ वैज्ञानिक 3. श्री वी.के.बघेल कनिष्ठ वैज्ञानिक	भौतिक, सामान्य, रासायनिक एवं गैर धात्विक, धात्विक, कार्बनिक, सूक्ष्मजीव विज्ञानिक, विश्व विज्ञानिक, मृदा, स्लज, तलछट और परिवेशी वायु के विश्लेषण हेतु वायु प्रदूषण पैरामीटर, स्रोत उत्सर्जन, शोर एवं सूक्ष्म मौसम वैज्ञानिक पैरामीटर
149	क्षेत्रीय प्रयोगशाला, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एससी-17, भरतपुरी, उज्जैन - 4565010 मध्य प्रदेश	1. डा. शोभा धानेकर मुख्य रसायनज्ञ 2. श्री प्रतिम खरे वैज्ञानिक 3. डा. दीपक काले, कनिष्ठ वैज्ञानिक	भौतिक, सामान्य, रासायनिक एवं गैर धात्विक, धात्विक, कार्बनिक, सूक्ष्मजीव विज्ञानिक, विश्व विज्ञानिक, मृदा, स्लज, तलछट और परिवेशी वायु के विश्लेषण हेतु वायु प्रदूषण पैरामीटर, स्रोत उत्सर्जन, शोर एवं सूक्ष्म मौसम वैज्ञानिक पैरामीटर
150	क्षेत्रीय प्रयोगशाला, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्कीम नं.78, भाग-2, अरण्य नगर, इन्दौर-452010, मध्य प्रदेश	1. डा. डी.के.बाघेला, वैज्ञानिक 2. श्री प्रतिम खरे वैज्ञानिक 3. डा. दीपक काले, कनिष्ठ वैज्ञानिक	भौतिक, सामान्य, रासायनिक एवं गैर धात्विक, धात्विक, कार्बनिक, सूक्ष्मजीव विज्ञानिक, विश्व विज्ञानिक, मृदा, स्लज, तलछट और परिवेशी वायु के विश्लेषण हेतु वायु प्रदूषण पैरामीटर, स्रोत उत्सर्जन, शोर एवं सूक्ष्म मौसम वैज्ञानिक पैरामीटर

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 12 अगस्त, 2011 के कार्यालय जापन के प्रावधानों के अनुसार कार्यालय जापन की अनिवार्य पूर्वापेक्षा के अधीन पात्रता प्राप्ति हेतु अपेक्षित प्रत्यायन/ प्रमाणन प्राप्त करने के लिए इस प्रकार उल्लिखित पर्यावरणीय प्रयोगशाला तथा सरकारी विश्लेषक केवल 31 अगस्त, 2012 तक वैध रहेंगे।

शुद्धिपत्र

(ख)

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 23 के अधीन जारी अधिसूचना सं. 145 (ई) दिनांक 21 फरवरी, 1991 के खण्ड 1 के साथ पठित धारा 12 की उप-धारा 1 के खण्ड (ख) और धारा 13 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032 ने (क) नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला को उक्त अधिनियम और इसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं को सौंपे गये कार्य करने हेतु "पर्यावरणीय प्रयोगशालाएं" के रूप में और (ख) तालिका के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को विश्लेषण के लिए भेजे गये वायु, जल, एवं अन्य पदार्थों के स्तंभ (4) में दर्शाए गए पैरामीटरों के संबंधित समूहों के लिए विनिर्दिष्ट नमूनों का विश्लेषण करने हेतु सरकारी विश्लेषक के रूप में मान्यता देता है।

क्र.सं.	प्रयोगशाला का नाम	सरकारी विश्लेषक का नाम	मान्यता हेतु पैरामीटर समूह
1.	2.	3.	4.
137	केन्द्रीय प्रयोगशाला, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली - 110032	1. श्री जे.एस. कन्वोत्रा, सदस्य सचिव 2. डा. एस.डी.माखीजानी, निदेशक 3. डा. बी.के.चौधरी, वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता 4. डा. एम.क्यू. अंसारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक 5. डा. सी.एस. शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक 6. डा. डी.पी.मुखोपाध्याय, वरिष्ठ वैज्ञानिक 7. डा. डी. साहा, वरिष्ठ वैज्ञानिक 8. श्री एन.सी. दुर्गापाल, वैज्ञानिक 'ग' 9. डा. एस.के. त्यागी, वैज्ञानिक 'ग' 10. श्री बी.के. जखमोला, वैज्ञानिक 'ग'	भौतिक, सामान्य, रासायनिक एवं गैर धात्विक, धात्विक, कार्बनिक, सूक्ष्मजीव विज्ञानिक, विश्व विज्ञानिक, मृदा, स्लज, तलछट और परिवेशी वायु के विश्लेषण हेतु वायु प्रदूषण पैरामीटर, स्रोत उत्सर्जन, शोर एवं सूक्ष्म मौसम वैज्ञानिक पैरामीटर

यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2009 भारत के राजपत्र असाधारण भाग-3 संख्या 202 दिनांक 30 अक्टूबर, 2009 में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचित प्रयोगशालाओं की मान्यता की वैधता अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष की अवधि अर्थात् 30 सितम्बर, 2014 तक थी।

अब, उक्त अधिसूचना में, डा. एस.डी. माखीजानी (उपर्युक्त स्तंभ 3 का क्र.सं.2) की सेवानिवृत्ति तथा डा. एम.क्यू.अंसारी (उपर्युक्त स्तंभ 3 का क्र.सं.4) और डा. डी.पी.मुखोपाध्याय (उपर्युक्त स्तंभ 3 का क्र.सं.6) के स्थानान्तरण के कारण, इन प्रविष्टियों को हटा दिया गया है तथा उक्त तालिका के स्तंभ 4 के अनुरूप प्रतिस्थापित सरकारी विश्लेषकों के नामों को राजपत्र अधिसूचना संख्या विधि/42(3)/87 दिनांक 01 अक्टूबर, 2009 के स्तंभ 3 में निविष्ट किया गया है।

क्र.स.	प्रयोगशाला का नाम	हटाई गई क्रम संख्याओं में अधिसूचित सरकारी विश्लेषकों के नाम	निविष्ट किये गए सरकारी विश्लेषकों के नाम
1.	2.	3.	4.
137	केन्द्रीय प्रयोगशाला, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली - 110032	क्र.सं.2. डा. एस.डी. माखीजानी, निदेशक क्र.सं.4. डा. एम.क्यू. अंसारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक क्र.सं.6. डा. डी.पी. मुखोपाध्याय, वरिष्ठ वैज्ञानिक	श्री पी.के. मिश्रा, वैज्ञानिक 'घ' डा.(श्रीमती)प्रतिमा अकोलकर, वैज्ञानिक 'घ' श्री पी.के. बेहरा, वैज्ञानिक 'ग'

दिनांक 01 अक्टूबर, 2009 की अधिसूचना के अन्य विषय अपरिवर्तित रहेंगे।

प्रो. स.प्र. गौतम, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/184/11/असा.]

पाद टिप्पणी:

मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. 728 (ई) दिनांक 21.07.1987 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसके पश्चात उसमें निम्नलिखित के द्वारा संशोधन किये गये : (1) का.आ. 838 (ई), दिनांक 23.09.87 (2) का.आ. 989 (ई) दिनांक 17.11.87 (3) का.आ. 489 (ई) दिनांक 17.05.88 (4) का.आ. 156 (ई) दिनांक 24.02.89 (5) का.आ. 846 (ई) दिनांक 24.10.89 (6) का.आ. 375 (ई) दिनांक 26.04.1990 (7) का.आ. 803(ई) दिनांक 23.09.92 (8) का.आ. 97 (ई) दिनांक 05.12.1994 (9) का.आ. 418(ई) दिनांक 31.03.1996 (10) का.आ. 889 (ई) दिनांक 31.08.1996 (11) का.आ. 452 (ई) दिनांक 31.05.97 (12) का.आ. 631 (ई) दिनांक 31.05.1998 (13) का.आ. (ई) 336 दिनांक 01.01.1999 (14) का.आ. 44 (ई) दिनांक 15.01.2001, (15) का.आ. संख्या 490 (ई), दिनांक 01.06.2001 और (16) का.आ. संख्या 532 (ई), दिनांक 01.01.2002, का.आ. संख्या 1168 (ई), दिनांक 01.06.2002, का.आ. संख्या 888 (ई), दिनांक 01.06.2003, (19) विधि/42(3)/87, दिनांक 01.06.2004, (20) विधि/42(3)/87, दिनांक 01.03.2005 (21) विधि/42(3)/87, दिनांक 01.09.2005, (22) विधि/42(3)/87, दिनांक 15.12.2005, विधि/42(3)/87, दिनांक 01.05.2006, विधि/42(3)/87 दिनांक 01.09.2006, विधि/42(3)/87 दिनांक 01.08.2007, विधि/42(3)/87 दिनांक 01.10.2007, विधि/42(3)/87 दिनांक 01.02.2008, विधि/42(3)/87, दिनांक 01.4.2008, विधि/42(3)/87, दिनांक 01.10.2009, विधि/42(3)/87, दिनांक 15.01.2010 और विधि/42(3)/87 दिनांक 20.09.2010

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD **NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st January, 2012

No. Legal 42(3)/87.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 12 and Section 13 read with clause 1 of the Notification No. 145 (E), dated 21st February, 1991, issued under Section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032 hereby recognize, (a) the Laboratories specified in column (2) of the Table below as 'Environmental Laboratories' to carry out the functions entrusted to the environmental laboratories under the said Act, and the rules made thereunder and (b) specified persons in column (3) of the Table as the Government Analysts for the purpose of analysis of samples of air, water, or other substances sent for analysis, specified for respective groups of parameters mentioned in column (4). After Sr. No. 146 of the Notification No. Legal/42(3)/87, dated 27th January, 2011, and the entries relating thereto, the following Serial Nos. and entries shall be added namely

(A)

S.No.	Name of Laboratory	Name of the Govt. Analysts	Recognized for parameter groups
(1)	(2)	(3)	(4)
147	Central Laboratory Uttar Pradesh Pollution Control Board PICUP Bhawan 3 rd Floor, B- Block Vibhuti Khand, Gomti Nagar Lucknow-226 010 U.P.	1. Dr. Madhu Bhardwaj Chief Environmental Officer 2. Dr. Brajesh Bahadur Scientific Officer 3. Dr. Ashok Verma, Assistant Scientific Officer 4. Dr. Richa Mishra Assistant Scientific Officer 5. Smt. Usha Kiran Assistant Scientific Officer 6. Dr. Neelam Deepak Assistant Scientific Officer	Physical, general, chemical & non-metallic, metals, organics, microbiological, Toxicological, soil, sludge, sediments, and air pollution parameters for analysis of ambient air, source emission, noise and micro- meteorological parameters.

48140/12-2

148	Regional Laboratory M.P. Pollution Control Board Plot No. 455/456, Vijay Nagar Jabalpur- 482 002 Madhya Pradesh	1. Sh. T.S. Banerjee Junior Scientist 2. Dr. A.K. Khare Junior Scientist 3. Sh. V.K. Beghal Junior Scientist	Physical, general, chemical & non-metallic, metals, organics, microbiological, Toxicological, soil, sludge, sediments, and air pollution parameters for analysis of ambient air, source emission, noise and micro- meteorological parameters.
149	Regional Laboratory M.P. Pollution Control Board Sc 17, Bharatpuri Ujjain-456 010 Madhya Pradesh	1. Dr. Shobha Dhanekar Chief Chemist 2. Sh. Pratim Khare Scientist 3. Dr. Deepak Kale Junior Scientist	Physical, general, chemical & non-metallic, metals, organics, microbiological, Toxicological, soil, sludge, sediments, and air pollution parameters for analysis of ambient air, source emission, noise and micro- meteorological parameters.
150	Regional Laboratory M.P. Pollution Control Board Scheme No. 78, part-II, Aranya Nagar Indore-452 010 Madhya Pradesh	1. Dr. D.K. Wagela Scientist 2. Sh. Atul Kotia Scientist 3. Sh. R.M. Gamad Chemist	Physical, general, chemical & non-metallic, metals, organics, microbiological, Toxicological, soil, sludge, sediments, and air pollution parameters for analysis of ambient air, source emission, noise and micro- meteorological parameters.

The Environmental Laboratories and the Government Analysts so mentioned shall remain valid only upto 31st Aug, 2012 as per provisions of Office memorandum dated 12th Aug, 2011 issued by Ministry of Environment & Forests to acquire the required accreditation/certification to achieve eligibility under the essential Pre-requisite of office memorandum

(B)

CORRIGENDUM

in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 12 and Section 13 read with clause 1 of the Notification No. 145 (E), dated 21st February, 1991,

issued under Section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032 had recognized, (a) the Laboratories specified in column (2) of the Table below as 'Environmental Laboratories' to carry out the functions entrusted to the environmental laboratories under the said Act, and the rules made thereunder and (b) specified persons in column (3) of the Table as the Government Analysts for the purpose of analysis of samples of air, water, or other substances sent for analysis, specified for respective groups of parameters mentioned in column (4).

S.No.	Name of Laboratory	Name of the Govt. analysts	Recognized for parameter groups
1.	2.	3.	4.
137	Central Laboratory, Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sh. J.S. Kamyotra, Member Secretary 2. Dr. S.D. Makhijani, Director 3. Dr. B.K. Choudhary Senior Environmental Engineer 4. Dr. M.Q. Ansari Senior Scientist 5. Dr. C.S. Sharma Senior Scientist 6. Dr. D.P. Mukhopadhyay Senior Scientist 7. Dr. D. Saha, Senior Scientist 8. Sh. N.C. Durgapal Scientist 'C' 9. Dr. S.K. Tyagi Scientist 'C' 10. Sh. B.K. Jakhmola Scientist 'C' 	Physical, general, chemical & non-metallic, metals, organics, microbiological, Toxicological, soil, sludge, sediments, and air pollution parameters for analysis of ambient air, source emission, noise and micro-meteorological parameters.

This Notification dated 1st Oct, 2009 was published in The Gazette of India Extraordinary Part III No. 202 dated 30th Oct, 2009 and the validity of recognition of Laboratories Notified was for 5 years from date of Notification i.e. upto 30th Sept, 2014.

Now in the aforesaid Notification, due to superannuation of Dr. S.D Makhijani (Sr No. 2 of column 3 above) and transfer of Dr. M.Q Ansari (Sr No. 4 of column 3 above) and Dr. D.P Mukhopadhyay (Sr No.6 of column 3 above) these entries have been deleted and the names of substituted Govt analysts as in column 4 of Table below have been inserted at column 3 of Gazette Notification No. Legal 42 (3)/87 dated 1st Oct, 2009.

S.No	Name of Laboratory	Name of Govt. Analyst Notified at Sr. No. deleted	Name of substituted Govt. Analyst inserted
(1)	(2)	(3)	(4)
137	Central Laboratory Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan East Arjun Nagar Delhi-110032	Sr. No. 2. Dr. S.D. Makhijani Director	Sh. P.K. Mishra Scientist 'D'
		Sr. No. 4 Dr. M.Q. Ansari Senior Scientist	Dr (Mrs) Pratima Akolkar Scientist 'D'
		Sr. No. 6 Dr. D.P. Mukhopadhyay Senior Scientist	Sh. P.K. Behera Scientist 'C'

The other contents of the Notification dated 1st Oct, 2009 shall remain unchanged.

Prof S.P GAUTAM, Chairman

[ADVT. III/4/184/11/Exty.]

Foot Note : The principal notification was published in the Gazette of India vide No S.O. 728(e), dated 21-7-1987 and subsequently amended vide- (1) Nos. S.O. 838 (E), dated 23-9-87, (2) S.O. 989 (E), dated 17-11-87, (3) S.O. 489 (E), dated 17-5-88, (4) S.O. 156(E), dated 24-2-89, (5) S.O. 846(E), dated 24-10-89, (6) S.O. 375(E), dated 26-4-1990, (7) S.O. 803 (E), dated 23-9-92, (8) S.O. 97(E), dated 5-12-1994, (9) S.O. 418 (E), dated 31-3-1996, (10) S.O. 889(E), dated 31-8-1996, (11) S.O. 452(E), dated 31-5-97, (12) S.O. 631(E), dated 31-5-1998, (13) S.O. 336(E), dated 1-1-1999, (14) S.O. 44(E), dated 15-1-2001, (15) S.O. 490(E), dated 1-6-2001, (16) S.O. 532(E), dated 1-1-2002, (17) S.O. 1168(E), dated 1-6-2001, (18) S.O. 888(E), dated 1-6-2003, (19) Legal/42(3)/87, dated 1-6-2004, (20) Legal/42(3)/87, dated 1-3-2005, (21) Legal/42(3)/87, dated 1-9-2005, (22) Legal 42(3)/87, dated 15-12-2005, (23) Legal /42(3)/87, dated 1-5-2006, Legal/42(3)/87, dated 1-9-2006, Legal/42(3)/87, dated 1-1-2007, Legal /42(3)/ 87, dated 15-4-2007, Legal /42(3)/87, dated 1-8-2007, Legal /42(3)/87, dated 1-10-2007, Legal /42(3)/87, dated 1-2-2008, Legal /42(3)/87, dated 1-4-2008, Legal /42(3)/87, dated 1-10-2009, Legal /42(3)/87, dated 15-1-2010 and Legal /42(3)/87, dated 20-9-2010.